

ICRA Limited

May 14, 2022

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai 400 001, India Scrip Code: 532835 National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block Bandra-Kurla Complex Bandra (East)

Mumbai - 400 051, India

Symbol: ICRA

Dear Sir/Madam,

Sub.:- Advertisement copies

Please find enclosed copies of the extracts of the unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of ICRA Limited (the "Company") for the quarter and year ended March 31, 2022, published in the following newspapers on May 14, 2022, pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

- 1. Financial Express
- 2. Jansatta

You are requested to take the above on record.

Regards,

Sincerely,

(S. Shakeb Rahman)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

Building No. 8, 2nd Floor, Tower A DLF Cyber City, Phase II Gurugram - 122002, Haryana Tel.: +91.124.4545300 CIN: L74999DL1991PLC042749 Website: www.icra.in
Email: info@icraindia.com
Helpdesk: +91.9354738909

Registered Office: B - 710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi - 110001. Tel.: +91.11.23357940-41

मुंबई, 13 मई (भाषा)।

मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएं बढ़ने और विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहने से घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। मानक सूचकांक अंतिम क्षणों में बिकवाली के दबाव में आकर लगातार छठे दिन नुकसान के साथ बंद हुए।

बीएसई का तीस शेयरों वाला मानक सूचकांक कारोबार के अंत में 136.69 अंक यानी 0.26 फीसद गिरकर 52,793.62 अंक पर रहा। कारोबार के दौरान यह 855.4 अंक उछलकर 53.785.71 अंक तक पहुंच गया था लेकिन अंतिम घंटे में मुनाफावसूली का जोर रहने से यह नीचे गिर गया। इसी तरह एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी भी 25.85 अंक यानी 0.16 फीसद गिरकर 15,782.15 अंक पर आ गया। सूचकांक में

आइसीआइसीआइ बैंक, एनटीपीसी, भारती एअरटेल, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और मारुति सजकी को सबसे ज्यादा नकसान हुआ। इसके उलट सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइटीसी, एचयूएल, टाइटन और रिलायंस के शेयर लाभ में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में टोक्यो, हांगकांग, सोल और शंघाई के सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी शेयर बाजारों में बृहस्पतिवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला था। इस बीच अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.09 फीसद चढ़कर 108.6 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारतीय बाजारों से निकासी का सिलसिला जारी है। शेयर बाजार से मिले आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी निवेशकों ने बृहस्पतिवार को 5,255.75 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की बिकवाली की थी।

फोर्ब्स की सूची में भारतीय कंपनियों में शीर्ष पर रिलायंस

एसबीआइ,

नई दिल्ली, 13 मई (भाषा)।

शामिल कंपनियों में से

फोर्ब्स की दुनिया भर की कंपनियों की नवीनतम 'ग्लोबल 2000 सुची में उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दो पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गई है। फोर्ब्स ने 2022 के लिए शीर्ष 2,000 कंपनियों की रैंकिंग जारी करते हुए बताया कि इस सूची में दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनियां स्थान पाती हैं जिसके लिए उन्हें बिक्री, लाभ, परिसंपत्ति और बाजार मृल्यांकन जैसे मानकों पर परखा जाता है। इस सची में रिलायंस ने भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान पाया है। इसके बाद 105वें स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक, 153वें स्थान पर एचडीएफसी बैंक और 204वें स्थान पर आइसीआइसीआइ बैंक है। इस सूची में शामिल अन्य प्रमुख भारतीय कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी (228वीं रैंक), एचडीएफसी लिमिटेड (268वीं रैंक), इंडियन आयल (357वीं रैंक),टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड (384वीं रैंक), टाटा स्टील (407वीं रैंक) और एक्सिस बैंक (431वीं रैंक) शामिल हैं।

फोर्ब्स ने कहा, 'इस साल सूचीबद्ध कंपनियों की ग्लोबल 2000 सूची में ऊर्जा और बैंकिंग क्षेत्र की केपनियां सर्वोच्च रैंक पाने वाली भारतीय कंपनियों में शामिल हैं।' रिलायंस की अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच बिक्री 104.6 अरब डालर रही और यह ऐसी पहली भारतीय कंपनी बन गई है जिसका सालाना राजस्व 100 अरब डालर से अधिक है। फोर्ब्स ने कहा, 'ग्लोबल 2000 में दुनियाभर की सभी सूचीबद्ध कंपनियों में से रिलायंस दो पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर आ गई।

भारतीय कंपनियों में यह पहले स्थान पर है। इस साल की शुरुआत में फोर्ब्स ने अंबानी की कुल संपत्ति 90.7 अरब डालर रहने का अनुमान लगाया था जिसके साथ वह इस साल के अरबपितयों की सूची में दसवें स्थान पर हैं।' एसबीआइ 56.12 अरब डालर के बाजार पंजीकरण के साथ भारत की बड़ी कंपनियों के मामले में दूसरे स्थान पर है। उसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक आइसीआइसीआइ और एचडीएफसी हैं। इस सूची में जुड़ने वाली नई कंपनियों में गौतम अडाणी की अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडाणी ट्रांसिमशन लिमिटेड और अडाणी टोटल गैस लिमिटेड शामिल हैं। फोर्ब्स ने कहा, 'अडाणी तब सुर्खियों में आए थे जब वह इतिहास के सबसे अमीर एशियाई अरबपित बने।

सार्वजनिक सूचना

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि

हम नरेश कुमार वर्मा तथा रेनू वर्मा निवार्स

1/1567, मानसरोवर पार्क, मोतीराम रोड, शाहदरा,

दिल्ली-32 ने अपने पुत्र मयंक वर्मा को उनकी पर्त्न

सिंहत अपनी सभी चल एवं अचल सम्पत्तियों से

बेदखल कर दिया है। हम उनके किसी भी कृत्य के

जनता फ्लैट नं. 853, पॉकेट-बी एसएफ, कैट-ए,

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयशर मोटर्स

लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : 3रा तल, सलेक्ट

सिटीवाक, ए-3 डिस्ट्रिक्ट सिटी सेन्टर, साकेत, नई

दिल्ली–110017 के रु.10/– (रुपये दस मात्र) प्रति

के 100 इक्विटी शेयरों के लिये शेयर प्रमाण पंत्र सं

26818 जिसका विशिष्ट सं. 2679901-2680000 है

जो सुभाष चन्दर के नाम से पंजीकृत है, गुम हो गय

है। सुभाष चन्दर ने डुटिलकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी

करने के लिये कम्पनी में आवेदन किया है, कि यि

किसी व्यक्ति का उक्त शेयर प्रमाणपत्र के संदर्भ मे

कोई दावा हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिने

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत

कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में

प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा

(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम

बैगक्लूज एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत

कार्यालय एस नं. 69, 2रा तल, बाग दीवार फतेहपुरी,

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली राज्य'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए आवेदक कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 4 मई, 2022

को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन

के अवस्थिति क्लॉज परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी

केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे

वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी

एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों (14) के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा

आपित के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र

द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा

पंजी. कार्यालय: एस नं. 69, 2रा तल, बाग दीवार

कृते एवं के लिये, आवेदक कम्पनी

बैगक्लूज एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड,

सिद्धार्थ कुमार बोथ्रा

DIN: 07616143

करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

बैगक्लुज एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड, CIN: U36999DL2016PTC306855

मेलः sidharth.srcc@gmail.com

फतेहपुरी, दिल्ली-110006

दिल्ली-110006 में है, के मामले में

30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

के भीतर कम्पनी के पास ऐसे दावे दाखिल करें।

पोलियो: 0016812

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 12 मई, 2022

आलोक श्रीवास्तव

हस्ता.

सुभाष चन्दर

एडवोकेट (एम.कॉम., एलएलएम

जीआरपी-2, फेज-II, सेक्टर-16र्बी

द्वारका, नई दिल्ली-110078

लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपया 19 पैसे चढ़कर 77.31 पर आया

मुंबई, 13 मई (भाषा)।

रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डालर के मुकाबले 19 पैसे चढ़ गया। अमेरिकी मुद्रा में आई कुछ कमजोरी से रुपए को बल मिला। इससे पहले बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया सार्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डालर के मुकाबले 77.35 पर खुला, और फिर बढ़त दर्ज करते हुए 77.31 पर आ गया जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 19 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 25 पैसे की गिरावट के साथ 77.50 प्रति डालर पर बंद हुआ था जो इसका सार्वकालिक निचला स्तर था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है।

मारुति सुजुकी सोनीपत में लगाएगी नया संयंत्र

इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के

मुकाबले अमेरिकी डालर की

स्थिति को दर्शाने वाला डालर

सूचकांक 0.19 फीसद की

गिरावट के साथ 104.65 पर आ

नई दिल्ली, 13 मई (भाषा)।

देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआइ) ने शुक्रवार को कहा कि वह हरियाणा में स्थापित किए जाने वाले अपने नए विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण में 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एमएसआई ने शेयर बाजार को नए विनिर्माण संयंत्र के बारे में जानकारी दी।

इसके मुताबिक, कंपनी सोनीपत जिले के आइएमटी खरखोदा में 800 एकड़ जमीन के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली

छापे में 88.30 लाख रुपए बरामद

नई दिल्ली, 13 मई (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय ने पनामा पेपर लीक मामले से जुड़े एक व्यक्ति के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में उसके मध्य प्रदेश और गोवा स्थित परिसरों पर छापेमारी कर 88.30 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि छापेमारी की यह कार्रवाई संजय विजय शिंदे के खिलाफ की गई। शिंदे के ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित एक फर्म से लाभकारी हित जुड़े हुए हैं और उसके सिंगापुर के बैंक खाते में विभिन्न विदेशी संस्थानों ने 31 करोड रुपए से अधिक राशि जमा करवाई है।

trigger type first first 🌠 Punjab & Sind Bank सिद्धार्थ एंक्लेव, आश्रम चौक, नई दिल्ली-14 फोन सं: 011-26349590 ईमेल: d0707@psb.co.in

बैंक दो बोली प्रणाली के तहत, नोएडा में सेक्ट 7, नोएडा, यू.पी. के पास इन्वेंट्री / सामान रखने के लिए न्यूनतम 11 महीने की अवधि व लिए ग्राउंड फ्लोरें / बेसमेंट पर लगभग 3500 वर्ग फुट के कार्पेट एरिया को गोदाम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करत है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 04-06-2022 शाम 5.00 बजे तक है। विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.punjabandsindbank.co.in

प्राधिकृत अधिकारी

प्रारूप संख्या आईएनसी-26 कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कंपनी का रिजस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र पीठ,

नई दिल्ली (दिल्ली) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उपधारा (5) और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के उपनियम मैसर्स सहदेव फिनवेस्ट प्रा० लि०

CIN NO: U67120DL1996PTC081362

रंजीकृत कंपनी कार्यालय 166, प्रेटर कैलाश नई दिल्ली ढीआई 110048 में...... याचिकाकत आम जनता को वह नोटिस दी जाती है कि वह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय दिल्ली राज्य से उत्तराखंड राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 20.09.2021 को अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम तापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है ।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण र यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० कॉम्पलैक्स, ना दिल्ली- 110003 पते पर पंजीकृत ढाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेगा। आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

दिनांकः 11/05/2022 मनजीत जोहर (निदेशक) ভী০आई০एन०- 00763984 पता: 104/38, देहरादून रोड निकट जोशी हॉस्पिटल आश्तोष नगर, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखंड

याचिकाकर्ता (मै० सहदेव फिनवेस्ट प्रा० लि०)

फॉर्म सं0. आईएनसी–28 कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसार क्षेत्रीय निदेशक के समझ.

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13(4), और कंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में

एसपीएम एनर्जी प्राइवेट सिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 414/5, ओसियन बिल्डिंग, 12, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के मामलें में

कंपनी के पंजीकृत कार्यासय को दिल्ली की

रा.रा.से. से उत्तर प्रदेश राज्य में बदलने के लिए एतद द्वारा सामान्य जनता को सुवित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानान्तरित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के अन्तर्गत 07 मई, 2022 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैतक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकृत, केंद्रीय सरकार अर्थात, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी की संस्था बिंड नियमावली में परिवर्तन करने की याधिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को सुचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 414/5, ओसियन बिल्डिंग, 12. नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 पर भेजें।

कृते एसपीएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड उमंग माधूर दिनांकः 14.05.2022 निवेशक

DIN: 05272099 पताः ई-801, पर्ल गेटवे टावर्स, सेक्टर-44, नोएडा सेक्टर 37, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा **उत्तर प्रदेश 201303**

फॉर्म सं0. आईएनसी-26 कंपनी (निषमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसार

क्षेत्रीय निवेशक के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13(4), और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में

एसपीएम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 414/5, ओसियन बिल्डिंग, 12, नेहरू प्लेस. नई दिल्ली-110019 के मामलें में

सार्वजनिक सुचना

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली की रा.रा.क्षे. से उत्तर प्रवेश राज्य में बदलने के लिए एतद द्वारा सामान्य जनता को सचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "उत्तर प्रवेश राज्य" में स्थानान्तरित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 07 गई. 2022 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार अर्थात, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी की संख्या बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमशीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित तसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से बाँदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओं कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को स्थित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 414/5, ओसियन बिल्डिंग, 12, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 पर मेजें कृते एसपीएम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता/-स्थानः दिल्ली **जमंत्र** नासूर निदेशक दिनांकः 14.05.2022 DIN: 05272099 पताः ई-801, पर्ल गेटवे टावर्स, सेक्टर-44 नोएडा सेक्टर ३७, गीतम बुद्ध नगर, नोएडा

उत्तर प्रवेश 201303

INVITATION FOR SUBMISSION OF RESOLUTION PLAN FOR IMAGICAAWORLD

ENTERTAINMENT LIMITED UNDER SWISS CHALLENGE METHOD

ImagicaaWorld Entertainment Limited ("IEL" or "Company") owns and operates an integrated entertainment destination, which includes a theme park and a water park (under brand name Imagicaa) and Hotel Novotel Imagicaa. The Company had availed debt facilities ("Facilities") from a consortium of lenders led by the Union Bank of India (the "Lenders"). The Company subsequently came under stress and had not been able to service its debt obligation dues towards the Lenders. In this regard, the Lenders have entered into an inter-creditor agreement on 19 April 2022, in accordance with the Reserve Bank of India's ("RBI") Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets (RBI/2018-19/203 DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19) dated 7 June 2019 (as amended or modified) ("Prudential Framework").

All interested bidders may kindly note that pursuant to the earlier bid process conducted by the Lenders, Lenders have received a binding offer dated 7 January 2022 read with additional letter dated 2 March 2022 ("Primary Offer") from an interested entity("Anchor Bidder") for an aggregate amount of INR 575 Crores and comprises of (i) change in management of the IEL; (ii) issuance of shares of IEL to the Lenders for an amount of INR 75 Crores; and (iii) assignment of all the Facilities for an aggregate amount of INR 500 Crores. together with all underlying securities, pledge, guarantees, undertaking, promises issued by IEL or any third party in relation to the Facilities. The board of directors of IEL in its meeting dated 11 May 2022 have taken on record and approved the Primary Offer subject to receipt of necessary approvals of the Lenders and shareholders of the Company. Basis the Primary Offer submitted by the Anchor Bidder, the Lenders are seeking resolution plans/offers ("Resolution Plan(s)") from eligible bidders having adequate capability as acceptable to the Lenders, to resolve the outstanding debt of the Company through a 'Swiss Challenge' process, using the Primary Offer as the anchor bid or the base offer ("Resolution Process"). The Resolution Plan may also include change of management pursuant to the Prudential Framework along with full and final settlement of the outstanding debt. Accordingly, the Primary Bidder will be accorded an opportunity to better the terms of the highest offer/ bid submitted pursuant to such Swiss Challenge process under the Resolution Process.

BOB Capital Markets Limited (BOBCAPS) has been appointed by the Lenders as the process advisor ("Process Advisor") for the Resolution Process. Interested bidders would be allowed access to the data room including the information memorandum for commencing due diligence and making their binding irrevocable bids on execution of a Confidentiality Deed which is a part of the Bid Document uploaded on the website (https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx or www/bobcaps.in/tenders.asp) and on providing a refundable participation fee of Rs 5,00,000/- (Rupees Five Lakh).

The last date for submission of the Resolution Plan and necessary documents in relation thereto is 31 May, 2022 by 3:00 PM IST. Resolution Plan shall be submitted in a sealed envelope by way of physical copies addressed to Union Bank of India, Stressed Asset Management Branch, 104, Bharat House, Ground Floor, Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400023. The Bidder shall also submit an electronic copy of the Resolution Plan (password protected) through an email to magic@bobcaps.in and samvmumbai@unionbankofindia.bank

For all updates, amendments, modifications, corrigendum and information in relation to the process, please visit the website (https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx or www/bobcaps.in/tenders.asp) on a regular basis

In case of any clarifications, please contact the following

Contact Persons	Telephone Number	E-mail Id
Ms. Avantika Banerji	022 61389359	magic@bobcaps.in
Mr. Mukesh Kosarekar	+91 9913337155	samvmumbai@unionbankofindia.bank

 This advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute an offer from or on behalf of the lenders or any commitment on the part of the Process Advisor/ Lenders. The Process Advisor/ Lenders reserve the right to withdraw/suspend/ modify the Resolution Process or any part thereof, to accept or reject any/all offer(s) at any stage of the process or to vary any terms without assigning any reasons and without any liability. This is not an

 Any extension in timelines / modification in the content of this advertisement will not necessarily be carried out through another advertisement, but may be notified directly on the website as detailed above and interested participants should regularly visit the website to keep themselves updated regarding clarifications, modifications, amendments or extensions

. This is not an offer or an invitation to offer or undertake any sale of





अमृत कॉर्प लिमिटेड CIN: L15141UP1940PLC000946 पंजीकृत कार्यालयुः सीएम-28, प्रथम तल, गगुन एन्क्लेव, अमृत नगर, जी.टी. रोड, गाजियाबाद-201009 (यूपी) कॉर्पोरेट कार्यालय: अमृत कॉरपोरेट सेंटर, ए-95, सेक्टर-65, नोएडा-201 309 (यूपी) दूरभाष नं.: 0120-4506900, फैक्स नं.: 0120-4506910, वेबसाइट: www.amritcorp.com,

ईमेल:info@amritcorp.com

					(प्रति शेयर डेटा	छोड़कर रु. लाख
क्रम	विवरण		समाप्त तिमाही	- 9	सम	गप्त वर्ष
सं.		31.03.2022 (अंकेक्षित)	31.12.2021 (अनंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	1,712.07	1,998.88	1,359.33	5,878.93	3,658.41
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(263.14)	344.91	191.51	1,463.63	2,230.67
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(263.14)	344.91	191.51	1,463.63	2,230.67
4	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(141.27)	280.61	256.49	1,312.81	1,639.86
5	अविघ हेतु कुल व्यापक आय (अविघ हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	(134.65)	276.90	265.12	1,324.90	1,648.44
6	इक्विटी शेयर पूंजी	303.82	303.82	303.82	303.82	303.82
7	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है।	12	300.00	75	20,200.29	19,103.26
8	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)					
3	मूल:	(4.65)	9.24	8.44	43.21	52.91
	तरलः	(4.65)	9.24	8.44	43.21	52.91

1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई 31 मार्च, 2022

को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.amritcorp.com) पर उपलब्ध है। 2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के विस्तृत अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट किमटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 13 मई, 2022 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने उक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है तथा उसे लेखा-परीक्षकों के सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ बीएसई लि. में दाखिल किया गया है।

3. उसे चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिये जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि / वर्ष के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्प्रसारित किये गये हैं।

अमृत कॉर्प. लिमिटेड के लिए (एन.के. बजाज) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(₹ in lakh)

तिथि: 13 मई, 2022 स्थानः गाजियाबाद



Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749 Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Telephone No.: +91-11-23357940; Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

S. No.	Particulars	Quarter ended March 31, 2022 (Audited)	Year ended March 31, 2022 (Audited)	Quarter ended March 31, 2021 (Audited)	Year ended March 31, 2021 (Audited)
1	Total income from operations	5,235.65	19,473.14	4,846.41	18,126.72
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items)	2,643.98	9,334.87	2,205.25	7,166.29
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	2,643.98	9,334.87	2,205.25	7,166.29
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	1,876.63	7,330.93	1,625.45	5,294.54
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,901.17	7,378.13	1,633.06	5,320.00
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	65,513.30	65,513.30	60,492.89	60,492.89
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)				
	Basic :	19.51	76.21	16.90	55.04
	Diluted:	19.51	76.21	16.90	55.04

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(₹ in lakh)

S. No.	Particulars	Quarter ended March 31, 2022 (Audited)	Year ended March 31, 2022 (Audited)	Quarter ended March 31, 2021 (Audited)	Year ended March 31, 2021 (Audited)
1	Total income from operations	9,370.93	34,280.52	8,209.46	30,106.08
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items)	4,654.35	15,208.63	3,051.72	11,200.51
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	4,654.35	15,208.63	3,051.72	11,200.51
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	3,373.35	11,353.24	2,250.68	8,268.34
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	3,374.99	11,315.54	2,259.38	8,270.06
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	83,395.91	83,395.91	74,807.59	74,807.59
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each) -			25.5	2-50-00-0
	Basic:	34.73	116.74	23.08	84.89
	Diluted ;	34.73	116.74	23.08	84.89

NOTES:

1. The above is an extract of the detailed format of the annual audited financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results are available on the stock exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the Company's website www.icra.in.

By Order of the Board of Directors Ramnath Krishnan Managing Director & Group C.E.O. (DIN: 09371341)

बेंक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda ED SEEL

क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा रीजन, 13वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

Place: Gurugram

Date: May 12, 2022

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

परिशिष्ट-IV-A [नियम 6(2) & 8(6) देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) & 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता बँक ऑफ बढ़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेत् नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

क्र. सं.	कर्जदार और गारंटर्स का नाम एवं पता	अचल संपत्तियों का विवरण ज्ञात भार के साथ, यदि कोई हो	कुल बकाया	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी तिथि एवं समय	कब्जा की स्थिति	निरीक्षण की तिथि एवं समय	शाखा का नाम और सम्पर्क नं.
1	श्री अमित गुप्ता (उधारकर्ता) निवासी ।।। बी, 45—ए, नेहरू नगर—तृतीय, गाजियाबाद—201001	रिहायशी सम्पत्ति फ्लैट नं. सी-703, 7वां तल, टॉवर-सी, ऑफिसर सिटी – 1, गाँव नूर नगर, राज नगर एक्सटेंशन, एनएच-58, परगना लोनी, गाजियाबाद, यू. पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अमित गुप्ता के नाम पर है।	रु. 10,33,590 (रु. दस लाख तैतीस हजार पाँच सौ नब्बे मात्र) और पूर्ण चुकौती की तिथि तक भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित	₹ 22,49,000/- ₹ 2,24,900/- ₹ 10,000/-	31-05-2022 को अर्पांड 02.00 बजे से अर्पांड 06.00 बजे तक	भौतिक कब्जा	25-05-2022 को पूर्वाङ 10.00 बजे से अर्पाङ 02.00 बजे तक	कौशाम्बी शाखा/ 8929163240
2	1) श्री चंद्रकांत ओबेरॉय पुत्र स्वं. श्री रघु नाथ ओबेरॉय (उधारकर्ता) पताः एफ44/10, राजनगर, गाजियाबाद, यूपी. 2) श्रीमती शारदा रानी पत्नी श्री चंद्र कांत ओबेरॉय (सह—उधारकर्ता), पताः एफ44/10, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 3) मैसर्स उदित इंटरप्राइजेज क) श्री उदित ओबेरॉय पुत्र चंद्रकांत ओबेरॉय (प्रोपराईटर) 33, ओम नगर, जीटी रोड के समाने, राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201010 ख) श्री चंद्रकांत ओबेरॉय पुत्र स्वं. श्री रघु नाथ ओबेरॉय (गारंटर) निवासी एफ 44/10, राजनगर, गाजियाबाद, यूपी.	जोकि फ्लैट नं. आए—10 / एफ—29, प्रथम तल, राज नगर, तह. और जिला गाजियाबाद (यूपी.) में स्थित, क्षेत्रफल 61.03 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री चंद्रकांत ओबेरॉय पुत्र स्वं. श्री रघु नाथ ओबेरॉय के नाम पर है।	पूर्ण चुकौती की तिथि तक लागत, प्रभार, अन्य प्रभार, अन्य विविध	₹ 26,80,000/- ₹ 2,68,000/- ₹ 10,000/-	31-05-2022 को अर्पाइ 02.00 बजे से अर्पाइ 06.00 बजे तक	भौतिक कब्जा	25-05-2022 को पूर्वाइ 10.00 बजे से अपीइ 02.00 बजे तक	कौशाम्बी शाखा / 8929163240
3	श्री विनीत कुमार पाल पुत्र श्री रूप नारायण पाल और श्री विपिन कुमार पुत्र श्री रूप नारायण पाल (उधारकर्ता) निवासीः सी–59, सेक्टर-एमयू–01, ग्रेटर नोएडा जिला गीतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश –201310	ब्लॉक ई, सैक्टर -XU-01, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बद्ध नगर युपी में स्थित	रु. 12,56,187.78 (रु. बारह लाख छप्पन हजार एक सौ सतासी और पैसे अट्ठहत्तर मात्र) और दिनांक 07. 06.2018 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज साथ में पूर्ण चुकौती की तिथि तक लागत, प्रभार, अन्य प्रभार, अन्य विविध	₹ 8,78,000/- ₹ 87,800/- ₹ 10,000/-	31-05-2022 को अर्पाङ 02.00 बजे से अर्पाङ 06.00 बजे तक	भौतिक कब्जा	25-05-2022 को पूर्वाझ 10.00 बजे से अर्पाझ 02.00 बजे तक	नोएडा —63 शाखा/ 8929163251
4	श्री सुरेश साहनी पुत्र हृदय साहनी और श्रीमती राम साक्षी देवी पत्नी सुरेश साहनी, निवासीः पलैट नं. 1295, ब्लॉक-ए, तृतीय तल, एसईसी-एमयू-।।, ग्रेटर नोएडा,, जीबी नगर, यू.पी.	रिहायशी फ्लैट नं. 1295, ब्लॉक—ए, तृतीय तल, सैक्टर—एमयू—।।, ग्रेटर नोएडा, जीबी नगर, यू.पी में स्थित	रु. 20,99,052 (रु. बीस लाख निन्यान्वे हजार बावन मात्र) और दिनांक 01.09.2019 से भविष्य का ब्याज एवं प्रभार, इत्यादि सहित	₹ 8,78,000/- ₹ 87,800/- ₹ 10,000/-	31-05-2022 को अर्पाइ 02.00 बजे से अर्पाइ 06.00 बजे तक	भौतिक कब्जा	25-05-2022 को पूर्वाइ 10.00 बजे से अर्पाइ 02.00 बजे तक	नोएडा —63 शाखा/ 8929163251

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm & https://ibapi.in पर दिए गए लिंक को देखें।

इच्छ्क बोलीदाता ऊपर वर्णित सम्पत्ति के समक्ष शाखा से सम्पर्क कर सकते है। प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा दिनांक : 13-05-2022, स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 14.5.2022

पत्राचार का पता







FINANCIAL EXPRESS

Welspun Investments and Commercials Limited Corporate Identification Number L52100GJ2008PLC055195 Regd. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat 370110, India. Tel. No. +91 2836 661111, Fax No. + 91 2836 279010

Email: CompanySecretary_WINL@welspun.com; Website: www.welspuninvestments.com Corporate Office: Welspun House, 7th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai – 400013. Tel. No. +91 22 66136000, Fax No. +91 22 2490 8020 NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 (1)(a) of the SEBI (Listing Obl and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, May 20, 2022, inter alia, to consider and approve the Audited Financial Statements of the Company for the year ended March 31.

For Welspun Investments and Commercials Limited

Place : Mumbai Date : May 13, 2022

Amol Nandedkar Company Secretary



एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited (भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of Himachal Pradesh) A MINI RATNA & SCHEDULE 'A' PSU CIN No. L40101HP1988GOI008409

Invitation for Expression of Interest SJVN Ltd. invites open EOI from National/Domestic Companies for

Expression of Interest for formation of Joint Venture Utility Company for Non-Core Business Activities of SJVN'. For details, visit websites www.sjvn.nic.in and www.eprocure.gov.in.

Last date for submission of application is 02/06/2022 (1800 Hrs). Amendments, if any, shall be issued on websites only.

For and on behalf of SJVN Ltd HOD (Civil Contracts), SJVN Corporate Headquarter, Shanan, Shimla-171006 (H.P.) E-mail: civilcontract@sjvn.nic.in

INVITATION FOR SUBMISSION OF RESOLUTION PLAN FOR IMAGICAAWORLD ENTERTAINMENT LIMITED UNDER SWISS CHALLENGE METHOD

ImagicaaWorld Entertainment Limited ("IEL" or "Company") owns and operates an integrated entertainment destination, which includes a theme park and a water park (under brand name Imagicaa) and Hotel Novotel Imagicaa. The Company had availed debt facilities ("Facilities") from a consortium of lenders led by the Union Bank of India (the "Lenders"). The Company subsequently came under stress and had not been able to service its debt obligation dues towards the Lenders. In this regard, the Lenders have entered into an inter-creditor agreement on 19 April 2022, in accordance with the Reserve Bank of India's ("RBI") Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets (RBI/2018-19/203 DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19) dated 7 June 2019 (as amended or modified) ("Prudential Framework").

All interested bidders may kindly note that pursuant to the earlier bid process conducted by the Lenders, Lenders have received a binding offer dated 7 January 2022 read with additional letter dated 2 March 2022 ("Primary Offer") from an interested entity("Anchor Bidder") for an aggregate amount of INR 575 Crores and comprises of (i) change in management of the IEL; (ii) issuance of shares of IEL to the Lenders for an amount of INR 75 Crores; and (iii) assignment of all the Facilities for an aggregate amount of INR 500 Crores. together with all underlying securities, pledge, guarantees, undertaking, promises issued by IEL or any third party in relation to the Facilities. The board of directors of IEL in its meeting dated 11 May 2022 have taken on record and approved the Primary Offer subject to receipt of necessary approvals of the Lenders and shareholders of the Company. Basis the Primary Offer submitted by the Anchor Bidder, the Lenders are seeking resolution plans/offers ("Resolution Plan(s)") from eligible bidders having adequate capability as acceptable to the Lenders, to resolve the outstanding debt of the Company through a 'Swiss Challenge' process, using the Primary Offer as the anchor bid or the base offer ("Resolution Process"). The Resolution Plan may also include change of management pursuant to the Prudential Framework along with full and final settlement of the outstanding debt. Accordingly, the Primary Bidder will be accorded an opportunity to better the terms of the highest offer/ bid submitted pursuant to such Swiss Challenge process under the Resolution Process.

BOB Capital Markets Limited (BOBCAPS) has been appointed by the Lenders as the process advisor ("Process Advisor") for the Resolution Process. Interested bidders would be allowed access to the data room including the information memorandum for commencing due diligence and making their binding irrevocable bids on execution of a Confidentiality Deed which is a part of the Bid Document uploaded on the website (https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx_or www/bobcaps.in/tenders.asp) and on providing a refundable participation fee of Rs 5,00,000/- (Rupees Five Lakh).

The last date for submission of the Resolution Plan and necessary documents in relation thereto is 31 May, 2022 by 3:00 PM IST. Resolution Plan shall be submitted in a sealed envelope by way of physical copies addressed to Union Bank of India, Stressed Asset Management Branch, 104, Bharat House, Ground Floor, Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400023. The Bidder shall also submit an electronic copy of the Resolution Plan (password protected) through an email to magic@bobcaps.in and samvmumbai@unionbankofindia.bank

For all updates, amendments, modifications, corrigendum and information in relation to the process, please visit the website (https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx_or www/bobcaps.in/tenders.asp) on a regular basis.

In case of any clarifications, please contact the following:

Contact Persons	Telephone Number	E-mail Id
Ms. Avantika Banerji	022 61389359	magic@bobcaps.in
Mr. Mukesh Kosarekar	+91 9913337155	samvmumbai@unionbankofindia.bank

an offer from or on behalf of the lenders or any commitment on the part of the Process Advisor/ Lenders. The Process Advisor/ Lenders reserve the right to withdraw/suspend/ modify the Resolution Process or any part thereof, to accept or reject any/all offer(s) at any stage of the process or to vary any terms without assigning any reasons and without any liability. This is not an Any extension in timelines / modification in the content of this advertisement

will not necessarily be carried out through another advertisement, but may be notified directly on the website as detailed above and interested participants should regularly visit the website to keep themselves updated regarding clarifications, modifications, amendments or extensions

3. This is not an offer or an invitation to offer or undertake any sale of





NAGPUR POWER AND INDUSTRIES LIMITED

CIN-L40100MH1996PLC104361 Registered Office: Nirmal, 20th floor, Nariman Point, Mumbai 400 021, Tel # +91 22 2202 3055/66. Fax# +91 22 2204 3162, Email: npil_investor@khandelwalindia.com, Website: - www.nagpurpowerind.com NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, May 20, 2022, inter-alia, to consider and take on record the Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2022. Further, the said notice is also available on the website of the Company at www.nagpurpowerind.com and also on the website of Bombay Stock Exchange viz. www.bseindia.com For Nagpur Power And Industries Limited

Nidhi Salampuria Director & Company Secretary & Mumbai, May 13, 2022 Compliance Officer

ASSOCIATED ALCOHOLS & BREWERIES LTD. CIN: L15520MP1989PLC049380

Regd Office: 4th Floor, BPK Star Tower, A.B. Road, Indore-452 008 (M.P.) e-mail: investorrelations@aabl.in website: www.associatedalcohols.com, Phone: 0731-4780400

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of Board of Directors of the company is scheduled to be held on Wednesday, the 25" May, 2022 inter alia, to consider and approve the Audited Financial Result / Statement for the Quarter and Year ended on 31" March, 2022 and to consider and recommend dividend, if any, on the equity shares of the company for the financial year ended 31" March, 2022.

This Notice is also available on the website of the company at www.associatedalcohols.com and on the website of the stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Date: 13.05.2022 Place : Indore

Company Secretary & Compliance Officer

For: Associated Alcohols & Breweries Ltd.

Sumit Jaitely



ASSAM POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED A fully customer centric company

TENDER NOTICE

E-tenders with a validity upto 180 days from the last date of bid submission are hereby invited from eligible bidders for Supply, Construction and Installation of LT AB cables for conversion of existing LT lines on bare conductor to Aerial Bunched XLPE cable within the jurisdiction of Badarpur Electrical Circle of APDCL under Distribution Infrastructure Works (Loss Reduction) of Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS). The bid document along with other relevant information will be available for download in www.apdcl.org and www. assamtenders.gov.in as mentioned hereunder: NIT No : CGM/PP&D\/APDCL/RDSS/Badarpur/LR/Pkg-L

Description	Date & Time
Date of Download of RFB/NIT	20.05.2022 at 16:00 hrs.
Pre-Bid Meeting	27.05.2022 at 12:00 hrs.
Bid Submission start date and time	03.06.2022 from 12:00 hrs.
Deadline for Bid submission	21.06.2022 till 15:00 hrs.
Date & time of opening of Technical part of Bid	23.06.2022 at 12:00 hrs.
Any changes of the above will be notifi-	

Please pay your energy bill on time and help us to serve you better!



ACCELYA SOLUTIONS INDIA LIMITED

accelya

Registered Office: "Accelya Enclave", 685/2B & 2C,1st Floor, Sharada Arcade. Satara Road, Pune - 411037 Tel: +91 20 66083777 Fax: +91 20 24231639 Email: accelyaindia.investors@accelya.com. Website: w3.accelya.com CIN: L74140PN1986PLC041033

Notice is hereby given that the Company has received intimation from the following shareholders/investors that share certificate pertaining to the equity shares held by them, as per details given below is stated to have been lost/misplaced/stolen and the holders/investors have applied for issue of duplicate share certificate

SI. No	Folio No.	Name of Shareholder(s)			Distinctive Nos.		
1	KLE022253	MARY JACOB	52725	10698701	10698750	50	
100		JOSE V J					

Public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificate. Any person(s) who has/have any claim in respect of the said certificate could lodge such claim with the Company or its Registrar at KFIN Technologies Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 to 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 within 15 days of the publication of this notice, after which no claim will be entertained by the Company. Any person dealing with the above share certificate shall be doing so solely at his /her risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for in any way.

For Accelya Solutions India Limited

Place: Pune Date : 13.05.2022

Ninad Umranikar Company Secretary



ORCHID PHARMA LIMITED

CIN: L24222TN1992PLC022994

Registered Office: 'Orchid Towers' No.313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034, Tamil Nadu, India Phone: +91-44-2821 1000/ 2823 0000 | Fax: +91-44-2821 1002 | E-mail: corporate@orchidpharma.com | Website: www.orchidpharma.com

Statement of Audited Standalone and Consolidated Financial Results

for the Quarter and Year Ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs) Standalone Consolidated Quarter ended Quarter ended Quarter ended Quarter ended Year ended Year ended **Particulars** March 31. March 31, March 31. March 31. March 31. 2022 2021 2022 2022 2021 2022 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 1 Total income from operations 18,198.10 12,303.05 56,597.73 17,987.92 13,084.65 56,856.03 2 Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items) (178.11)(2,723.39)(480.72)(658.64)(2,472.63)(195.12)3 Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items) (178.11)(2,723.39)(480.72)(658.64)(2,472.63)(195.12)4 Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items) (178.11)(2,723.39)(2,472.63)(195.12)(480.72)(658.64)5 Other comprehensive income (net of tax) 94.41 210.79 142.30 94.41 210.79 142.30 6 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (83.70)(2,512.60)(338.42)(564.23)(2,261.84)(52.82)(after tax)] 4.081.64 4.081.64 4,081.64 4.081.64 7 Equity Share Capital (face value of ₹10 per share) 4.081.64 4,081.64 NA 63,713.62 NA 60,656.35 8 Reserves (excluding Revaluation Reserve) NA NA Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) (1.61)(6.06) Basic (0.44)(6.67)(1.18)(0.48)(0.44)(1.61)(6.06)- Diluted (6.67)(0.48)

Note:

Place: Gurugram

Date: 12th May, 2022

1. The Standalone and Consolidated financial results for the quarter and financial year ended March 31, 2022 were reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on May 12, 2022. The Statutory Auditors have conducted an audit of the above Standalone and Consolidated financial results and have issued the Audit Report with Modified opinion in respect of Audited Consolidated financial results and unmodified opinion on the Audited Standalone financial results for the financial year ended March 31, 2022.

2. The above is an extract of the detailed format of the quarterly Consolidated and Standalone audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2022 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022 are available on the website of the BSE Limited i.e. www.bseindia. com and National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com, on the stock exchanges where the Company's shares are listed and on the website of the Company i.e., www.orchidpharma.com.

For and on behalf of the Board of Directors of Orchid Pharma Limited

Manish Dhanuka **Managing Director** DIN: 00238798

Golkonda Aluminium Extrusions Limited (Formerly known as Alumeco India Extrusion Limited) CIN: L74999DL1988PLC330668

Regd. Office: A-2/78-B, Keshav Puram, New Delhi - 110 035, India Tel: +91 011 4011 0240, +91 99851 21834, E-mail: cs@gael.co.in, Website: www.gael.co.in

Extract of Statement of Audited Standalone Financial Results

for the Quarter and Year ended 31.03.2022 (Amount in Millions) Year Quarter Quarter

Sr. No.	Particulars	ended 31.03.2022 (Audited)	ended 31.03.2022 (Audited)	ended 31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations (Net)		4.28	4.74
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.55)	5.19	3.04
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.55)	5.19	3.04
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.55)	5.18	3.04
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(1.55)	5.18	3.04
6	Paid-up Equity share capital (Face value Rs. 10/- each)	52.70	52.70	37.20
7	Other Equity (Reserves (excluding Revaluation Reserves)			
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) a) Basic b) Diluted	(0.29) (0.29)	1.08 1.08	0.78 0.29
Not	es:			

The above is an extract of the detailed format of quarter & financial year ended results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly & year to date financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the company's website (www.gael.co.in).

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13.05.2022.

For and on behalf of Golkonda Aluminium Extrusions Limited

Anand Bharti Whole Time Director

Place: New Delhi Date: 13.05.2022 DIN: 02469989



ICRA Limited Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749

Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Telephone No.: +91-11-23357940; Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

Quarter Quarter Year Year ended ended ended ended **Particulars** March 31, March 31, March 31, March 31, 2021 2022 2022 2021 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 5,235,65 19,473,14 4,846.41 18,126.72 Total income from operations Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items) 2,643.98 9,334.87 2,205.25 7,166.29 Net profit / (loss) for the period before tax 2,643.98 9,334.87 2,205.25 7,166.29 (after exceptional and / or extraordinary items) Net profit / (loss) for the period after tax 1,625.45 5,294.54 1,876.63 7,330.93 (after exceptional and / or extraordinary items) Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) 1,901.17 7,378.13 1,633.06 5,320.00 and Other comprehensive income (after tax)] 6 Equity share capital 965.12 965.12 965.12 965.12 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet 65,513.30 65,513.30 60,492.89 60,492.89

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS

19.51

19.51

76.21

76.21

	FOR THE QUARTER AND YEAR	R ENDED MA	ARCH 31, 2	2022	(₹ in lakt
S. No.	Particulars	Quarter ended March 31, 2022 (Audited)	Year ended March 31, 2022 (Audited)	Quarter ended March 31, 2021 (Audited)	Year ended March 31, 2021 (Audited)
1	Total income from operations	9,370.93	34,280.52	8,209.46	30,106.08
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items)	4,654.35	15,208.63	3,051.72	11,200.51
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	4,654.35	15,208.63	3,051.72	11,200.51
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	3,373.35	11,353.24	2,250.68	8,268.34
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	3,374.99	11,315.54	2,259.38	8,270.06
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	83,395.91	83,395.91	74,807.59	74,807.59
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each) -		2000	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	
	Basic:	34.73	116.74	23.08	84.89
11 1	Diluted:	34.73	116.74	23.08	84.89

NOTES:

Place : Gurugram

Date: May 12, 2022

8 Earnings per share (of ₹ 10/- each)

Basic

Diluted

 The above is an extract of the detailed format of the annual audited financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results are available on the stock exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the Company's website www.icra.in.

By Order of the Board of Directors Ramnath Krishnan Managing Director & Group C.E.O. (DIN: 09371341)

Serum Institute, Symbiosis to set up centre for vaccine research

FE BUREAU Pune, May 13

VACCINE MANUFAC-**TURER** Serum Institute of India (SII) has inked an MoU with Symbiosis International University (SIU) to set up a research centre for vaccines and biologicals. SII will Adar Poonawalla help set up an early

R&D facility within the Symbiosis campus at Lavale, Pune.

Adar Poonawalla, CEO, SII, said the research centre would be instrumental in advancing indigenous capabilities for end-to-end development of any futuristic technology and projects in the field of vaccines and biologics in collaboration with global partners.

Rajiv Yeravdekar, dean, faculty of health sciences, SIU, said they would get the best available talent and equip them with the latest technology that facilitates global partnerships and collaborations. The centre will lead the development of vac-

cines, technologies, products, and innovations in immunisation practices that provide equitable access to life-saving interventions, especially in low- and middle- income countries.

Poonawalla Fincorp posts Q4 profit of ₹119 crore

FE BUREAU Pune, May 13

(₹ in lakh)

55.04

55.04

16.90

16.90

POONAWALLA FINCORP, **EARLIER** Magma Fincorp, on Friday reported a consolidated profit after tax (PAT) of ₹118.9 crore for the quarter ended March 2022. The NBFC had posted a loss of ₹647.7 crore in O4FY21. Revenues declined by

10.6% year-on-year to ₹512.2 crore, while the firm's assets under management (AUM) for FY22 rose 16.5% y-o-y to ₹16,579 crore. Abhay Bhutada, managing director, Poonawalla Fincorp

said FY22 was a year of consolidation and the company is now poised for growth. The company's consolidated PAT for FY22 stood at

₹375 crore, while PBT was at ₹492 crore against a loss of ₹749 crore in FY21. NIM increased by 65 bps y-o-y to 8.9%. The FY22 disbursements stood at ₹9,494 crore, jumping 158% over FY21. The Poonawalla Fincorp

board has approved a capital raise of up to ₹1,000 crore for the housing subsidiary, Poonawalla Housing Finance (PHF), with a stake dilution of less than 15% in one or more tranches by way of a preferential issue during FY23. PHF crossed the ₹5,000-crore AUM mark in March 2022. Bhutada said the fundrais-

ing is for network expansion and to support AUM growth. The PHF AUM is projected to grow to over ₹10,000 crore by FY25. "There will also be value unlocking in the housing finance subsidiary with an initial public offering in future," Bhutada said.

WELSPUN ENTERPRISES LIMITED WELSPUN ENTERPRISES CIN: L45201GJ1994PLC023920

Regd. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, District Kutch, Gujarat 370110.

Corp. Office: Welspun House, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400013. Website: www.welspunenterprises.com Email Id: companysecretary wel@welspun.com Extract of Statement of Audited Consolidated Financial Results for the guarter and year ended 31 March 2022

op.		Q	UARTER ENDE	YEAR ENDED		
SR NO.	PARTICULARS	31-Mar-2022	31-Dec-2021	31-Mar-2021	31-Mar-2022	31-Mar-2021
10.		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income	53,464	28,366	60,097	1,57,499	1,67,152
2	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	8,549	1,662	6,347	16,735	17,972
3	Exceptional items (net)	-	-	-	-	-
4	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	8,549	1,662	6,347	16,735	17,972
5	Net Profit for the period after tax	6,500	1,294	4,094	12,610	13,017
	(after exceptional items and after non-controlling interests)					
6	Total Comprehensive Income for the period	6,538	1,292	4,061	12,750	13,064
	(Comprising profit for the period (after tax) and Other					
	Comprehensive Income (after tax)					
'	Paid-up equity share capital (Face Value Rs. 10/- each)	14,978	14,901	14,886	14,978	14,886
8	Earnings per share (EPS)					
	* Not Annualised					
	(a) Basic EPS (Rs)	4.32 *	0.84 *	2.74 *	8.37	8.67
	(b) Diluted EPS (Rs)	4.30 *	0.83 *	2.71 *	8.33	8.60

the Stock Exchanges website www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on company's website www.welspunenterprises.com 2 Additional information on standalone financial results is as follows:-Rupees in lakhs **QUARTER ENDED** YEAR ENDED SR NO. 31-Mar-2021 31-Dec-2021 31-Mar-2022 31-Mar-2021 **PARTICULARS** 31-Mar-2022 (Audited) (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) 47,765 22,506 50,618 1,34,474 1,43,916 2 6,748 584 5,390 11,600 Net profit for the period (before tax and exceptional items) 14,105

1 The above is an extract of detailed format of quarterly and year ended financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the quarterly/ year ended financial results are available on

584 5,390 11,600 14,105 630 3,972 9,344 10,745 630 3,945 9,483 10,776 For Welspun Enterprises Limited **Ajay Hans**

Managing Director DIN 00391261

financialexp.epar r.in Net profit for the period after tax

Place : Mumbai Date: 12 May 2022

3

5

New Delhi

Net profit for the period before tax (after exceptional items)

6,748 5,292 5,327 Total Comprehensive Income for the period (after tax)